

मक डिस्पोजल प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा रानीखेत के अन्तर्गत न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) रानीखेत के भवनों के निर्माण से उत्सर्जित होने वाले मलुवे का निस्तारण उक्त प्रस्तावित/निर्माणाधीन भूमि के समतलीकरण करने में उपयोग किया जायेगा एवं मलुवे को अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।


अमोन
प्रा०ख०लो०नि०वि०
रानीखेत


इं० उमेश लाल साह
अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
रानीखेत।


इं० अजय टम्टा
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
रानीखेत।


इं० ऑंकर पाण्डेय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
रानीखेत।

मलुवा निस्तारण योजना से सहमत प्रमाण पत्र

परियोजना विवरण :- न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा
के भवनों का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलुवा उत्सर्जित होगा उसका उपयोग समतलीकरण करने में किया जायेगा।

अतः मलुवा निस्तारण की योजना से सहमत हूँ।

सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत
न्यायिक अधिकारी
अल्मोड़ा

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम:- केन्द्र पोषित (सी0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा जजशिप (सिविल जज जू0 डि0) न्यायालय रानीखेत के अनावासीय भवन निर्माण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- वन पंचायत डोरब

क्षेत्रफल - 1.96 है0

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या - 2156

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे सीमांकन कार्य करना	है0	1.96	1453.00	2847.88
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	है0	1.96	1259.00	2467.64
3	चैनलिंग वायर से घेरबाड कार्य (378 र0मी0)	र0मी0	378	1865.23	705056.94
4	गड्ढा खुदान का कार्य 0.30x0.30x0.45	सं0	2156	15.80	34064.8
4	भूमि संरक्षण कार्य 1- कन्टूर फर्रे 450र0मी0 (450x35 = 15750) (औसत साईज- 1x0.30x0.30) 2- चाल खाल 2 सं0 (2x6500= 13000) (औसत साईज- 4x2.5x1.00) कुल योग- 28750	है0	1.96	28750.00	56350.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	है0	1.96	1046.00	2050.16
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित	सं0	2587	15.9	41133.30
			उपयोग		843970.72
7	पौधालय विकास भवन अनुरक्षण कार्य- उपयोग का 2%	है0	1.96	2.00%	16879.41
8	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	1.96	0.50%	4219.85
9	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	1.96	0.50%	4219.85
10	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	1.96	2.00%	16879.41
			प्रथम वर्ष का कुल योग		886169.24



द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरान का कार्य।	सं०	2156	2.48	5346.88
2	कंदूर फरों में बीज बुवाई	र०मी०	882	1.50	1323.00
3	पोधो की कीमत द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित	सं०	2587	2.70	6984.90
4	पौध का वाहन से ढुलान कार्य 50 कि०मी० दूरी से लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित	सं०	2156	12.17	26238.52
5	पोधो का सिर बोझ ढुलान 3 कि०मी०	सं०	2156	8.16	17592.96
6	पोधरोपण व थावलाबन्दी	सं०	2156	4.44	9572.64
7	निराई गुडाई व मल्विंग प्रथम बार	सं०	2156	1.64	3535.84
8	निराई गुडाई व मल्विंग द्वितीय बार	सं०	2156	1.64	3535.84
9	खाद व दवा का व्यय	सं०	2156	0.45	970.2
10	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रख-रखाव पर व्यय 8 महीन अगस्त से मार्च तक (रू० 12855.00 प्रति पॉच है०) $(1.96 \times 12855.00 \times 8 / 5) = 40313.28$	है०	1.96	12855.00 प्रति पॉच है०/माह	40313.28
11	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	1.96	318.00	623.28
12	वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पोधो में सिगलिंग प्रूनिंग व थावला बंदी कार्य 100 प्रति है०	है०	1.96	2667.00	5227.32
13	वृक्षारोपण के क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य।	सं०	882	1.50	1323.00
				उपयोग	122587.66
14	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	1.00%		1225.87
15	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है०	0.50%		612.9
18	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	2.00%		2451.74
19	साईन बोर्ड लगाना (3×4) फीट कम्पलीट कार्य।	है०	1000		1960.00
				द्वितीय वर्ष का कुल योग	128838.17

तृतीय चरण - अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है० के आधार पर $12855.00 \times 12\text{माह}/\text{प्रति } 5 \text{ है०} = 30852.00$)	है०	1.96	30852.00	60469.92
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	सं०	431	38.93	16778.83
3	निराई-गुडाई प्रथम बार	सं०	2156	1.64	3535.84
4	निराई-गुडाई द्वितीय बार	सं०	2156	1.64	3535.84
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	1.96	318.00	623.28
उपयोग					84943.71
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	1.00%		849.43
7	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है०	0.50%		424.71
10	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	2.00%		1698.86
तृतीय वर्ष का कुल योग					87916.71
चतुर्थ चरण - अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है० के आधार पर $12855.00 \times 12\text{माह}/\text{प्रति } 5 \text{ है०} = 30852.00$)	है०	1.96	30852.00	60469.92
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	1.96	318	623.28
उपयोग					61093.2
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	1.00%		610.93
6	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है०	0.50%		305.46
9	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	2.00%		1221.86
चतुर्थ वर्ष का योग					63231.45

पंचम चरण - अनुरक्षण कार्य तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है0 के आधार पर 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	1.96	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	1.96	318.00
				60469.92
				61093.2
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	1.00%	610.93
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है0	0.50%	305.46
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	2.00%	1221.86
				63231.45
छठा चरण - अनुरक्षण कार्य चतुर्थ वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है0 के आधार पर 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	1.96	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	1.96	318.00
				60469.92
				61093.2
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	1.00%	610.93
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.50%	305.46
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	2.00%	1221.86
				63231.45
सातवा चरण - अनुरक्षण कार्य पंचम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है0 के आधार पर 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	1.96	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	1.96	318.00
				60469.92
				61093.2
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	1.00%	610.93
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है0	0.50%	305.46
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	2.00%	1221.86
				63231.45

आठवा चरण - अनुरक्षण कार्य षष्ठम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है0 के आधार पर 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	1.96	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	1.96	318.00
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	1.00%	
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है0	0.50%	
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	2.00%	
आठवा वर्ष का योग				63231.45
नवौ चरण - अनुरक्षण कार्य सप्तम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है0 के आधार पर 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	1.96	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	1.96	318.00
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	1.00%	
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है0	0.50%	
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	2.00%	
नवें वर्ष का योग				63231.45
दसवौ चरण - अनुरक्षण कार्य अष्टम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है0 के आधार पर 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	1.96	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	1.96	318.00
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	1.00%	
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है0	0.50%	
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	2.00%	
दसवें वर्ष का योग				63231.45

एकादश चरण - अनुरक्षण कार्य नवम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है० के आधार पर $12855.00 \times 12\text{माह}/\text{प्रति } 5 \text{ है०} = 30852.00$)	है०	1.96	30852.00	60469.92
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	1.96	318.00	623.28
उपयोग					61093.2
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	1.00%		610.93
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है०	0.50%		305.46
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	2.00%		1221.86
एकादश वर्ष का योग					63231.45

द्वादश चरण - अनुरक्षण कार्य नवम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण काय 12 माह (5 है० के आधार पर $12855.00 \times 12\text{माह}/\text{प्रति } 5 \text{ है०} = 30852.00$)	है०	1.96	30852.00	60469.92
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	1.96	318.00	623.28
उपयोग					61093.2
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	1.00%		610.93
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.5 प्रतिशत	है०	0.50%		305.46
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	2.00%		1221.86
द्वादश वर्ष का योग					63231.45

प्रावकलन सारांश	
प्रथम वर्ष का व्यय योग	886169.24
द्वितीय वर्ष का व्यय योग	128838.17
तृतीय वर्ष का व्यय योग	87916.71
चतुर्थवर्ष का व्यय योग	63231.45
पंचम वर्ष का व्यय योग	63231.45
षष्ठम वर्ष का व्यय योग	63231.45
सप्तम वर्ष का व्यय योग	63231.45
अष्टम वर्ष का व्यय योग	63231.45
नवम वर्ष का व्यय योग	63231.45
दशम वर्ष का व्यय योग	63231.45
एकादश वर्ष का व्यय योग	63231.45
द्वादश वर्ष का व्यय योग	63231.45
योग	1672007.17
या	1672007.00


 वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
 अल्मोड़ा वन प्रभाग

